



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 11 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 20, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन अनुभाग

संख्या 912/तीन-2020-39(2)-2016

लखनऊ, 11 दिसम्बर, 2020

विज्ञप्ति

प0आ0-374

निम्नलिखित सूची में निर्दिष्ट पर्व/त्योहार, राष्ट्रीय पर्व एवं महापुरुषों की जन्म तिथियों को समस्त उत्तर प्रदेश में श्री राज्यपाल सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं। भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या 20/25-56-Pub-1, दिनांक 8 जून, 1957 के द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह सार्वजनिक अवकाश यथा निर्दिष्ट लोक अवकाश माने जायेंगे।

2-यदि कोई पर्व/त्योहार, राष्ट्रीय पर्व एवं महापुरुषों की जन्म तिथि एक साथ एक तिथि/दिवस को घटित होते हैं, तो ऐसी दशा में पृथक दिवस में सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया जायेगा। वर्ष 2021 अर्थात शक संवत् 1942-1943 एवं विक्रम संवत् 2077-2078 की समस्त सार्वजनिक अवकाशों की तिथियाँ (निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन हैं) निम्नवत् होंगी :-

वर्ष 2021 के सार्वजनिक अवकाश

क्र०	त्योहारों का नाम	अवकाश की संख्या	ग्रिगोरियन कलैण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक संवत् के अनुसार तिथि	विक्रम संवत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	2	3	4	5	6	7
1	गणतंत्र दिवस	1	26 जनवरी, 2021	माघ 06, 1942	पौष शुक्ल 13, 2077	मंगलवार
2	*मो० हजरत अली का जन्म दिवस	1	26 फरवरी, 2021	फाल्गुन 07, 1942	माघ शुक्ल 14, 2077	शुक्रवार
3	महाशिवरात्रि	1	11 मार्च, 2021	फाल्गुन 20, 1942	फाल्गुन कृष्ण 13, 2077	गुरुवार

1	2	3	4	5	6	7
4	होलिका दहन	1	28 मार्च, 2021	चैत्र 07, 1942	फाल्गुन शुक्ल 15, 2077	रविवार
5	होली	1	29 मार्च, 2021	चैत्र 08, 1942	चैत्र कृष्ण 01, 2077	सोमवार
6	गुड फ्राईडे	1	02 अप्रैल, 2021	चैत्र 12, 1942	चैत्र कृष्ण 05, 2077	शुक्रवार
7	डा0 भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस	1	14 अप्रैल, 2021	चैत्र 24, 1943	चैत्र शुक्ल 02, 2078	बुधवार
8	राम नवमी	1	21 अप्रैल, 2021	वैशाख 01, 1943	चैत्र शुक्ल 09, 2078	बुधवार
9	महावीर जयन्ती	1	25 अप्रैल, 2021	वैशाख 05, 1943	चैत्र शुक्ल 13, 2078	रविवार
10	*ईद-उल-फितर	1	14 मई, 2021	वैशाख 24, 1943	वैशाख शुक्ल 02, 2078	शुक्रवार
11	बुद्ध पूर्णिमा	1	26 मई, 2021	ज्येष्ठ 05, 1943	वैशाख शुक्ल 15, 2078	बुधवार
12	*ईदुज्जुहा (बकरीद)	1	21 जुलाई, 2021	आषाढ 30, 1943	आषाढ शुक्ल 12, 2078	बुधवार
13	स्वतंत्रता दिवस	1	15 अगस्त, 2021	श्रावण 24, 1943	श्रावण शुक्ल 07, 2078	रविवार
14	*मोहर्रम	1	19 अगस्त, 2021	श्रावण 28, 1943	श्रावण शुक्ल 12, 2078	गुरुवार
15	रक्षा बन्धन	1	22 अगस्त, 2021	श्रावण 31, 1943	श्रावण शुक्ल 15, 2078	रविवार
16	जन्माष्टमी	1	30 अगस्त, 2021	भाद्रपद 08, 1943	भाद्रपद कृष्ण 08, 2078	सोमवार
17	महात्मा गांधी जयन्ती	1	02 अक्टूबर, 2021	आश्विन 10, 1943	आश्विन कृष्ण 11, 2078	शनिवार
18	दशहरा (महानवमी)	1	14 अक्टूबर, 2021	आश्विन 22, 1943	आश्विन शुक्ल 09, 2078	गुरुवार
19	दशहरा (विजयदशमी)	1	15 अक्टूबर, 2021	आश्विन 23, 1943	आश्विन शुक्ल 10, 2078	शुक्रवार
20	*ईद-ए-मिलाद / बारावफात	1	19 अक्टूबर, 2021	आश्विन 27, 1943	आश्विन शुक्ल 14, 2078	मंगलवार
21	दीपावली	1	04 नवम्बर, 2021	कार्तिक 13, 1943	कार्तिक कृष्ण 30, 2078	गुरुवार
22	गोवर्द्धन पूजा	1	05 नवम्बर, 2021	कार्तिक 14, 1943	कार्तिक शुक्ल 01, 2078	शुक्रवार
23	भैयादूज / चित्रगुप्त जयन्ती	1	06 नवम्बर, 2021	कार्तिक 15, 1943	कार्तिक शुक्ल 02, 2078	शनिवार
24	गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा	1	19 नवम्बर, 2021	कार्तिक 28, 1943	कार्तिक शुक्ल 15, 2078	शुक्रवार
25	क्रिसमस-डे	1	25 दिसम्बर, 2021	पौष 04, 1943	पौष कृष्ण 06, 2078	शनिवार

\*यह त्योहार/पर्व स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे।

आज्ञा से,  
जितेन्द्र कुमार,  
प्रमुख सचिव।

3-निर्बन्धित अवकाशों की सूची

क्र0	त्यौहारों के नाम	अवकाश की संख्या	ग्रेगोरियन कलैण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक सम्वत् के अनुसार तिथि	विक्रम सम्वत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	2	3	4	5	6	7
1	नव वर्ष दिवस	1	01 जनवरी, 2021	पौष 11, 1942	पौष कृष्ण 02, 2077	शुक्रवार
2	मकर संक्रान्ति	1	14 जनवरी, 2021	पौष 24, 1942	पौष शुक्ल 01, 2077	गुरुवार
3	जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस	1	24 जनवरी, 2021	माघ 04, 1942	पौष शुक्ल 11, 2077	रविवार
4	बसंत पंचमी	1	16 फरवरी, 2021	माघ 27, 1942	माघ शुक्ल 05, 2077	मंगलवार
5	*हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रह0 का उर्स	1	19 फरवरी, 2021	माघ 30, 1942	माघ शुक्ल 07, 2077	शुक्रवार
6	संत रविदास जयंती	1	27 फरवरी, 2021	फाल्गुन 08, 1942	माघ शुक्ल 15, 2077	शनिवार
7	*शबे बरात	1	29 मार्च, 2021	चैत्र 08, 1942	चैत्र कृष्ण 01, 2077	सोमवार
8	होली	1	30 मार्च, 2021	चैत्र 09, 1942	चैत्र कृष्ण 02, 2077	मंगलवार
9	ईस्टर सैटरडे	1	03 अप्रैल, 2021	चैत्र 13, 1942	चैत्र कृष्ण 06 / 07, 2077	शनिवार
10	ईस्टर मन्डे / महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुहय जयन्ती	1	05 अप्रैल, 2021	चैत्र 15, 1942	वैशाख कृष्ण 06, 2077	सोमवार
11	चेटी चन्द	1	13 अप्रैल, 2021	चैत्र 23, 1943	चैत्र शुक्ल 01, 2078	मंगलवार
12	चन्द्रशेखर जयंती	1	17 अप्रैल, 2021	चैत्र 27, 1943	चैत्र शुक्ल 05, 2078	शनिवार
13	*जमात-उल-विदा (अलविदा) / रमजान का अंतिम शुक्रवार	1	07 मई, 2021	वैशाख 17, 1943	वैशाख कृष्ण 11, 2078	शुक्रवार
14	लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती	1	09 मई, 2021	वैशाख 19, 1943	वैशाख कृष्ण 13, 2078	रविवार
15	परशुराम जयन्ती	1	14 मई, 2021	वैशाख 24, 1943	वैशाख शुक्ल 02, 2078	शुक्रवार
16	*ईद-उल-फितर	1	15 मई, 2021	वैशाख 25, 1943	वैशाख शुक्ल 03, 2078	शनिवार

1	2	3	4	5	6	7
17	*ईदुज्जुहा (बकरीद)	1	22 जुलाई, 2021	आषाढ 31, 1943	आषाढ शुक्ल 13, 2078	गुरुवार
18	*मोहर्रम	1	20 अगस्त, 2021	श्रावण 29, 1943	श्रावण शुक्ल 13, 2078	शुक्रवार
19	विश्वकर्मा पूजा	1	17 सितम्बर, 2021	भाद्रपद 26, 1943	भाद्रपद शुक्ल 11, 2078	शुक्रवार
20	अनन्त चतुर्दशी	1	19 सितम्बर, 2021	भाद्रपद 28, 1943	भाद्रपद शुक्ल 13 / 14, 2078	रविवार
21	*चेहल्लुम	1	28 सितम्बर, 2021	आश्विन 06, 1943	आश्विन कृष्ण 07, 2078	मंगलवार
22	महाराजा अग्रसेन जयन्ती	1	07 अक्टूबर, 2021	आश्विन 15, 1943	आश्विन शुक्ल 01, 2078	गुरुवार
23	दशहरा (महाष्टमी)	1	13 अक्टूबर, 2021	आश्विन 21, 1943	आश्विन शुक्ल 08, 2078	बुधवार
24	महर्षि बाल्मीकि जयन्ती	1	20 अक्टूबर, 2021	आश्विन 28, 1943	आश्विन शुक्ल 15, 2078	बुधवार
25	सरदार बल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेन्द्र देव जयन्ती	1	31 अक्टूबर, 2021	कार्तिक 09, 1943	कार्तिक कृष्ण 10, 2078	रविवार
26	नरक चतुर्दशी	1	03 नवम्बर, 2021	कार्तिक 12, 1943	कार्तिक कृष्ण 13 / 14, 2078	बुधवार
27	छठ पूजा पर्व	1	10 नवम्बर, 2021	कार्तिक 19, 1943	कार्तिक शुक्ल 06, 2078	बुधवार
28	वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस	1	16 नवम्बर, 2021	कार्तिक 25, 1943	कार्तिक शुक्ल 12, 2078	मंगलवार
29	चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस	1	23 दिसम्बर, 2021	पौष 02, 1943	पौष कृष्ण 04, 2078	गुरुवार
30	क्रिसमस ईव	1	24 दिसम्बर, 2021	पौष 03, 1943	पौष कृष्ण 05, 2078	शुक्रवार

\*यह त्योहार/पर्व स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार होंगे।

4-उपर्युक्त के अतिरिक्त बैंकों की वार्षिक लेखाबन्दी की तिथि निम्नवत होगी :-

क्र0	बैंकों की लेखाबन्दी	अवकाश की संख्या	ग्रिगोरियन कलैण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक सम्बत् के अनुसार तिथि	विक्रम सम्बत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	2	3	4	5	6	7
1	**वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक लेखाबन्दी	1	01 अप्रैल, 2021	चैत्र 11, 1942	चैत्र कृष्ण 04, 2077	गुरुवार

\*\* केवल बैंकों/कोषागार/उपकोषागारों हेतु।

## 5-कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत अवकाशों की अनुसूची-

क्र०	त्योहारों के नाम	अवकाश की संख्या	ग्रिगोरियन कलैण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक सम्बत् के अनुसार तिथि	विक्रम सम्बत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	2	3	4	5	6	7
1	गुरु गोविन्द सिंह जयंती	1	20 जनवरी, 2021	पौष 30, 1942	पौष शुक्ल 07, 2077	बुधवार
2	गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस	1	24 नवम्बर, 2021	आग्रहायण 03, 1943	आग्रहायण कृष्ण 05, 2078	बुधवार

6-मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स (संशोधित), 1981 संस्करण पैरा-247(सी) की व्यवस्थानुसार जिलाधिकारी अपने स्तर से अधिकतम 03 स्थानीय अवकाश घोषित कर सकते हैं जिसके संबंध में कारण स्पष्ट करते हुए प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में संबंधित आयुक्त को अवगत करायेंगे। यदि तीन स्थानीय अवकाशों से अधिक स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने की आवश्यकता हो तो इस हेतु शासन की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

7-विभागाध्यक्ष कार्यालयों एवं अन्य विभागों में जहाँ पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू हैं वहाँ कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत घोषित अवकाश तथा प्रस्तर-6 में उल्लिखित जिलाधिकारियों द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश लागू नहीं होंगे।

आज्ञा से,  
जितेन्द्र कुमार,  
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 456 राजपत्र-2020-(997)-588 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 10 सा० प्रशासन-2012-(998)-400 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।